

## Important things of demand 1

- i) परम की इच्छा Desire of the object
- ii) खरीदने का साधन Buying instrument
- iii) खासगी की कार्य क्षमता Propensity to spend resources
- iv) निश्चित मूल्य Fixed price
- v) निश्चित अवधि Fixed time

## Types of demand -

Some of the important kinds of demand are -

(गोटा)

i) Price demand - Price demand refers to the different quantities of the commodity or service which consumer will purchase at given time and at given prices. Assuming other things remaining the same. Price demand has inverse relation with the price.

निम्नलिखित चित्रों में से किसी एक में मुद्रा, मूल्य, माँग, आय, अथवा किसी अन्य कारक के लिए रेखांकन करना है।

## 2) आय माँग

income demand refers to the different quantities of a commodity or service which consumers will buy at different levels of income. Assuming other things remaining constant & usually the demand for a commodity increases the income of a person increases unless the commodity happens to be an inferior product.

यह आय और वस्तुओं की मात्रा माँग के बीच कर्तव्य संबंध किसी वस्तु या सेवा की माँगों से संबंधित है। निश्चित आयों में, जबकि आय बढ़ती है, वस्तु के लिए आय के साथ माँग बढ़ती है।

(अर्थशास्त्र)

# Cross demand:-

When the demand for a commodity depends not on its price but on the price of other related commodities it is called cross demand. Here we take closely connected or related goods which are substitutes for one another.

For example -! tea and coffee. If the price of coffee falls, the consumer will be induced to buy more of tea and hence the demand of tea will increase. Thus in case of substitutes.

## Substitute Supplementary

आदि	गोबर	दूध	दही	खीर	मसूर	मूंग	चना
अन	गोबर	दूध	दही	खीर	मसूर	मूंग	चना
पुन	गोबर	दूध	दही	खीर	मसूर	मूंग	चना
अथ	गोबर	दूध	दही	खीर	मसूर	मूंग	चना
यथा	गोबर	दूध	दही	खीर	मसूर	मूंग	चना
सर्वत्र	गोबर	दूध	दही	खीर	मसूर	मूंग	चना
परिचय	गोबर	दूध	दही	खीर	मसूर	मूंग	चना
परिभाषा	गोबर	दूध	दही	खीर	मसूर	मूंग	चना
परिभाषा	गोबर	दूध	दही	खीर	मसूर	मूंग	चना
परिभाषा	गोबर	दूध	दही	खीर	मसूर	मूंग	चना
परिभाषा	गोबर	दूध	दही	खीर	मसूर	मूंग	चना

प्राण का विनाश होना नहीं चाहिए।

प्रश्न :-

प्रश्न :-  
प्राण का विनाश होना नहीं चाहिए।  
आय, राज, धन में परिवर्तन होने वाली वस्तु :-

Marked demand and Individual demand (table)

Price of  $x$  | Qty demanded | Price of  $y$  | Qty demanded

Demand Curve  
 The relationship between the price of a commodity and the quantity demanded is called demand curve. It is a downward sloping curve.

Individual Demand Curve  
 The graphic representation of demand schedule of an individual is called individual demand curve.

The graphic representation of demand schedule of an individual is called individual demand curve. The curve which shows the relationship between the price of a commodity and the quantity demanded of that commodity is called individual demand curve.

Individual demand curve shows the relationship between the price of a commodity and the quantity demanded of that commodity by an individual consumer. It is a downward sloping curve. The curve shows that as the price of a commodity falls, the quantity demanded of that commodity increases. This is the law of demand.



Individual Demand Schedule  
 Individual demand curve represents different quantities of commodity demanded by an individual at different prices.

In curve demand is measured X. Price measured Y. 1 unit of the commodity (balance next page) at price 4 we get point a likewise